



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28—मई 4, 2012 (वैसाख 8, 1934)

No. 17]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28—MAY 4, 2012 (VAISAKHA 8, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 अप्रैल 2012

सं. डीपी/पर्स-1/2012/26/3/26/97--श्री जी. के. सारस्वत ने  
अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31.03.2012 के (अपराह) से  
उप-विधि सलाहकार, के.अ. ब्यूरो के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. डीपी/पर्स-1/2012/27/10/2/2008--राष्ट्रपति, निम्नोक्त लोक  
अभियोजकों को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर सीधी भर्ती के

रूप में प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से के.अ. ब्यूरो, विशेष  
पुलिस स्थापना में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	उमेश चन्द्र सक्सेना	07.10.2011
2.	जयेश एम. एस.	07.10.2011
3.	नवीन कुमार	06.02.2012
4.	चन्द्र शेखर	03.10.2011
5.	विवेक	03.10.2011
6.	हर्ष मोहन सिंह	30.01.2012
7.	नीरज भारद्वाज	31.10.2011
8.	राकेश कुमार	26.12.2011

वे एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

## गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जनवरी 2012

सं. पी. सात-1/2012-मंत्रा.--इस मुख्यालय के समसंख्यक नोटिफिकेशन दिनांक 09.01.2012 के संदर्भ में।

उपरोक्त संदर्भित नोटिफिकेशन के क्रम सं. 05 में उल्लेखित श्री कुलदीप सिंह के ईरला सं. को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

के लिए

पढ़ें

ईरला-8716

ईरला-8729

आर. आर. दत्ता  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

दिनांक 4 अप्रैल 2012

सं. पी. सात-2/2012-मंत्रा.--इस कार्यालय के समसंख्यक नोटिफिकेशन दिनांक 06.01.2012 के संदर्भ में।

2. उपरोक्त संदर्भित नोटिफिकेशन के क्रम सं. 06 में उल्लेखित श्री राम कंवर यादव, ईरला-8711 के सहायक कमाण्डेंट (मंत्रा.) पद पर पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की तिथि एवं स्थान को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

के लिए

पढ़ें

23.12.2011 (पू.) कार्यालय पुलिस 13.10.2011 (पू.) कार्यालय पुलिस  
उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय  
रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली। रिजर्व पुलिस बल, ग्रेटर नोएडा।

आर. आर. दत्ता  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. ओ.दो-2269/86-कार्मिक-डी.ए.-1--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी नोटिस के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री आर. एस. बडेसरा, पुलिस उप महानिरीक्षक (एम.ए.सी/इन्टे.), महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली (ईरला-2532) ने दिनांक 01.04.2012 (पूर्वाह्न) को अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार उक्त अधिकारी को दिनांक 01.04.2012 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. पी. तीन-2/2012-कार्मिक (डी.ए.-5)--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने संबंधी नोटिस दिनांक 28.12.2011 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री करण राज सिंह, सहायक कमाण्डेंट (आई.आर.एल.

ए-6792), ग्रुप केन्द्र के.रि.पु. बल, ग्रेटर नोएडा ने दिनांक 01.04.2012 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 01.04.2012 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

## महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. ई.38015 (4)/1/त्याग-पत्र/जेएल/2012/कार्मिक-1/135--राष्ट्रपति, श्री जंगखोलेट लहंगडिम, सहायक कमाण्डेंट (परिवीक्षा)/के.औसुब का त्याग-पत्र दिनांक 14.03.2012 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

ह./-अपठनीय  
महानिदेशक/के.औसुब

## भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

(भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय)

नई दिल्ली-110124, दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. 104-जी.ई.-1/13-2006--भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं :-

सर्वश्री

1. अनुपम कुलश्रेष्ठ अधिवार्षिकी दिनांक 31.03.2012 (अपराह्न)
2. एच. गोपालाकृष्णा अधिवार्षिकी दिनांक 31.03.2012 (अपराह्न)
3. सुश्री रेनूबाला पारिजा अधिवार्षिकी दिनांक 31.03.2012 (अपराह्न)
4. बी. एस. लक्ष्मीनारायणा अधिवार्षिकी दिनांक 31.03.2012 (अपराह्न)
5. टी. के. बिश्वास अधिवार्षिकी दिनांक 31.03.2012 (अपराह्न)

ह./- अपठनीय  
सहा. नियंत्रक  
महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

## कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 2 अप्रैल 2012

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-356--महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली, इस कार्यालय के श्री अनिल कुमार गोयल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (कर्मचारी कोड सं. DLNDV-4051405) को लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-2, (रु. 9,300--34,800) जिसमें रु. 5,400/- का ग्रेड वेतन देय है, दिनांक 26.03.2012 (पूर्वा.) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. का.स्था. (ह व रो)/ई IV-पै/14--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुई हैं।

नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
श्रीमती सोफियाम्मा जोसफ	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.03.2012 अपराह्न (अधिवर्षिता)

ह./- अपठनीय  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

(महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 9 अप्रैल 2012

सं. सी.-2171/725-स्टेनो (1)--निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-1 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निजी सचिव (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर पी.बी.-2 में रुपये 9,300--34,800 + 4,600/- ग्रेड पे में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है:--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्रीमती कल्पना हीरा (अनु. जाति)	18.11.2011
2.	श्रीमती सुमन बत्रा	18.11.2011 (अपराह्न)

स्वर्ण सुब्बा राव  
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी.-2180/725-स्टेनो (1)--निम्नलिखित निजी सचिव (ग्रुप 'बी') को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव (ग्रुप 'बी') के पद पर पी.बी.-2 में रुपये 9,300--34,800 + 4,800/- ग्रेड पे में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है

नाम	पदोन्नति की तिथि
श्रीमती बेला बनर्जी (अनु. जाति)	16.11.2011

स्वर्ण सुब्बा राव  
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी.-2187/594--निम्नलिखित सीनियर रिप्रोग्रफरों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन) सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' के पद पर पी.बी.-2 में रुपये 9,300--34,800 + 4,600/- ग्रेड पे में पदोन्नत किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री डी. एन. बोरगाँवकर	01.02.2012
2.	श्री कृष्ण लाल (अनु. जाति)	30.08.2011
3.	श्री पी. सी. वर्मा	30.08.2011
4.	श्री सुब्रमन्य सम्बू प्रसाद	22.09.2011

स्वर्ण सुब्बा राव  
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी.-2198/718-ए--निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर पी.बी.-2 में रुपये 9,300--34,800 + 4,600/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री डी. रविन्दर	19.09.2011
2.	श्रीमती सत्यभामा नायक	23.09.2011
3.	श्री आर. एन. जौन	07.12.2011
4.	श्री राजन कुमार (अनु. जाति)	03.10.2011
5.	श्री एम. एल. चोपड़ा	04.01.2012
6.	श्री वी. सी. जोशी	07.12.2011
7.	श्री एस. चक्रवर्ती	20.12.2011
8.	श्री भूपिन्दर सिंह रयात	19.01.2012
9.	श्री भगत राम भट्ट	16.01.2012

स्वर्ण सुब्बा राव  
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी.-2219/698-मैप क्यूरेटर--श्री दुलाल चन्द्र दास, सहायक को दिनांक 01.11.2011 से 3 वर्ष अथवा आवश्यकता पड़ने पर इससे कम अवधि के लिए पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता में प्रतिनियुक्ति आधार पर मैप क्यूरेटर, सामान्य केन्द्रीय सेवा (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर पी.बी.-2 रुपये 9,300--34,800 + 4,200/- ग्रेड पे में नियुक्त किया जाता है

स्वर्ण सुब्बा राव  
भारत के महासर्वेक्षक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. 20/3(9)/2011-सीसीएस/10--राष्ट्रपति, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, तारापुर के प्रशासन अधिकारी-III (वेतन बैंड-2 रु. 9,300--34,800 + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्री लक्ष्मी चन्द मीणा को दिनांक 02.03.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई में प्रशासन अधिकारी-III (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चावको  
अवर सचिव

## राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. आरआरकेट/प्रशा./2011/भ-805/448--भारत के राष्ट्रपति, निर्माकित कर्मचारियों को राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में उनके नाम के सामने लिखी तिथि से पदोन्नति ग्रेड तथा वेतन बैंड में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	सं.सं. संख्या	नाम	वर्तमान ग्रेड (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन)	पदोन्नति ग्रेड (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन)	दिनांक से (पूर्वाह्न)	प्रभाग/अनुभाग
सर्वश्री						
1.	1399	विनोद गौड़	वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी (पीबी: 2, रु. 9,300/-- 34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी: 3, रु. 15,600/-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	01.07.2011	एएमटीडी
2.	1263	रविन्द्र शंकर चौधरी	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	पीएसआईएडी
3.	1309	करन सिंह	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	एएमटीडी
4.	1360	मनीष मन्याल	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	कम्प्यू. प्रभाग
5.	1398	देवेन्द्र सिन्नरकर	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	एलईएसडी
6.	1626	सुशील कुमार यादव	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	कम्प्यू. प्रभाग
7.	1211	ऋषिपाल	वैज्ञानिक सहायक/ई (पीबी: 3, रु. 15,600/-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	तकनीकी अधिकारी/सी (पीबी: 3, रु. 15,600/-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	-उपरोक्त-	एमओएसएस
8.	204	जगदीश कुमार	फोरमैन/बी (पीबी: 2, रु. 9,300/-- 34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-)	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	एलएसईएस

बी. के. जेना  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 2 अप्रैल 2012

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2244)/2012-भर्ती/277--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री एम. एस. गोफने, सहायक सुरक्षा अधिकारी (ए), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को निदेशालय में दिनांक 16.03.2012 की पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- और ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. जगन मोहन राव  
प्रशासन अधिकारी-III

## क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 4 अप्रैल 2012

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/8929--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्रीमती कोमलावल्ली दिनेशन, वरिष्ठ क्रय सहायक, [वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-], केन्द्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुंबई की नियुक्ति सहायक क्रय अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में, उसी एकक में दिनांक 03 अप्रैल 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक करते हैं।

कैथरीन राज  
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 10 अप्रैल 2012

दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. क्रभनि/07019/भर्ती/9055--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री एल. लिंगमूर्ति, वरिष्ठ भंडारी, [वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-], भंडार एकक, कल्पाक्कम को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में, भंडार एकक, तारापुर में दिनांक 05 मार्च 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

कैथरीन राज  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. क्रभनि/07019/भर्ती/9056--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री एम. डी. टी. मेनन, वरिष्ठ भंडारी, [वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-], भंडार एकक, कल्पाक्कम को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में, भंडार एकक, तारापुर में दिनांक 05 मार्च 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

कैथरीन राज  
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 4 अप्रैल 2012

सं. एनएफसी/काप्रभ-II/पदो.-11/105--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "जी" से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर "एच" के ग्रेड में वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- और ग्रेड पे रु. 10,000/- में स्थानापन्न हैसियत में, इसी इकाई में दिनांक 12.01.2012 से भावी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम
	सर्वश्री/श्रीमती/कु.
1.	ए. लक्ष्मीनारायण
2.	टी. गोपालकृष्ण
3.	आई. किरण कुमार
4.	एन. रमेश
5.	छूच. आर. रविन्द्रा
6.	एन. एस. दयानन्द
7.	एस. के. झा
8.	डॉ. कोमल कपूर
9.	आर. एस. कुलकर्णी
10.	बी. सत्यदेव

ए. जया कृष्णा  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. एनएफसी/काप्रभ. I/04/06/340--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ. I/04/06/232 दिनांक 06.03.2012 के क्रम में श्रीमती पी. वी. एस. फणी श्री, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 16.03.2012 (अपराह्न) तक सीमित किया जाता है।

ए. जया कृष्णा  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. एनएफसी/काप्रभ. I/04/06/341--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ. I/04/06/231 दिनांक 06.03.2012 के क्रम में श्री एस. कोटेश्वर राव, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.05.2012 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. जया कृष्णा  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. एनएफसी/काप्रभ. I/04/06/342--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ. I/04/06/230 दिनांक 06.03.2012 के क्रम में श्रीमती बी. पद्मलता, सहायक लेखा अधिकारी को रु. 5,400/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.05.2012 तक, जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. जया कृष्णा  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. एनएफसी/काप्रभ. I/04/06/343--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्रीमती पी. वी. एस. फणी श्री, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में दिनांक 26.03.2012 से 31.05.2012 तक अथवा भावी आदेश होने तक, जो भी पूर्व हो, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप नियुक्त करते हैं।

ए. जया कृष्णा  
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. एनएफसी/काप्रभ. I/04/06/354--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ. I/04/06/1033 दिनांक 03.12.2011 के क्रम में श्री वाई. नागार्जुना प्रसाद, सहायक जन संपर्क अधिकारी को रु. 5,400/- के ग्रेड पे

सहित रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड-3 में स्थानापन्न जन संपर्क अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 29.02.2012 (अपराह्न) तक सीमित किया जाता है।

ए. जया कृष्णा  
प्रशासन अधिकारी-III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एच. एम. बीपीओ सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 06 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी. सी./53378/एस.टी.ए./560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच. एम. बीपीओ सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मेसकोट हैवी इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 06 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी. सी./64365/एस.टी.ए./560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेसकोट हैवी इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नेक स्कूलर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 06 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी. सी./58008/एस.टी.ए./560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नेक स्कूलर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सर्जन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 06 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी. सी./45167/एस.टी.ए./560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सर्जन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स द्वारकेश मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 06 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी. सी./15370/एस.टी.ए./560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स द्वारकेश मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कनीडस कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 06 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी. सी./52543/एस.टी.ए./560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कनीडस कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सहाय इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 06 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी. सी./53230/एस.टी.ए./560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

दी जाती है कि मैसर्स सहाय इन्फ्रा प्रोजैक्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पल्लव डाय केम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 06 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी.सी/3498/एस.टी.ए/560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पल्लव डाय केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इन्डीका फर्नसोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 6 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी.सी/53634/एस.टी.ए/560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्डीका फर्नसोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शिव सोला सर्विसिस सिस्टमर्स सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 6 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी.सी/37677/एस.टी.ए/560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिव सोला सर्विसिस सिस्टमर्स सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स महाकाली रोलर फ्लोर एण्ड पल्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के  
विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 6 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी.सी/33161/एस.टी.ए/560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महाकाली रोलर फ्लोर एण्ड पल्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स हेतल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 6 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी.सी/63093/एस.टी.ए/560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हेतल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एम.सी.ए. फिलोडन स्पेशियल्टी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड  
के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 मार्च 2012

सं. आर.ओ.सी.सी/57684/एस.टी.ए/560/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम.सी.ए. फिलोडन स्पेशियल्टी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता-20, दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. कं/560(5)/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	136256	मैसर्स बाबा इन्फो सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
2.	024825	मैसर्स धर सेन एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	011401	मैसर्स स्वाइका मिनरल क्रशिंग मिल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
4.	069505	मैसर्स गार्डन मारबल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	063444	मैसर्स विक्टरी गुड्स एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
6.	154279	मैसर्स ब्राइट फ्यूचर लेशर सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
7.	132283	मैसर्स बालगोपाल इन्वेस्टमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	063156	मैसर्स एम. प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	052173	मैसर्स एसएनडी कम्प्यूटर कन्सलटेन्सी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
10.	129131	मैसर्स ओशो फैशनस प्राईवेट लिमिटेड
11.	102765	मैसर्स हिमगिरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	073122	मैसर्स सुधा फिजिकल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
13.	125337	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
14.	125341	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
15.	125340	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न नेचुरल गैस प्राईवेट लिमिटेड
16.	125338	मैसर्स ग्रेट हर्स्टन सीबीएम गैस प्राईवेट लिमिटेड

मुकतार सिंह  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 17 अप्रैल 2012

सं. कर/560(3)202--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	003814	मैसर्स ऑंकार थेराप्युटिक एण्ड हैल्थ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	003809	मैसर्स कटहिल रिजार्टस् प्राईवेट लिमिटेड
3.	003808	मैसर्स होजोस रेस्त्रां प्राईवेट लिमिटेड
4.	003806	मैसर्स टैरिस हॉलिलडे होम्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	003800	मैसर्स थॉमस हॉस्पिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड
6.	003795	मैसर्स ब्रैनक्रुज़ रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
7.	003791	मैसर्स पवन किनि कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	003790	मैसर्स बेबीलॉन वाटर स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	003788	मैसर्स परसुराम बॉयलर्स एण्ड एक्सेसरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
10.	003787	मैसर्स अनु स्मेस्ताद केफे प्राईवेट लिमिटेड
11.	003782	मैसर्स अम्ब्रेला नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
12.	003778	मैसर्स लिजेंड्स दि गोवन एक्सपीरियेंस रिजार्टस् प्राईवेट लिमिटेड
13.	003696	मैसर्स मधुकर वसंत खांडेपारकर कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	003699	मैसर्स इलैंगकुलिंग ओउनुनी थॉमस कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	003700	मैसर्स केन्नी इलैक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	003704	मैसर्स उढाचा एम्युज़मेंट प्राईवेट लिमिटेड
17.	003695	मैसर्स हार्लिंग ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	003689	मैसर्स मार्टिन एण्ड जूली रेस्त्रां प्राईवेट लिमिटेड
19.	003684	मैसर्स जैम्स लिप्स ड्रिलिंग प्राईवेट लिमिटेड
20.	003679	मैसर्स बारबरा एण्ड विकटोरिया रिजार्टस् प्राईवेट लिमिटेड
21.	003677	मैसर्स स्तिफेनी रिजार्टस् प्राईवेट लिमिटेड
22.	003608	मैसर्स सनशाइन बेकरी प्राईवेट लिमिटेड
23.	003615	मैसर्स साचबिमा शिम्पर्स एण्ड ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	003620	मैसर्स टिवई होटल्स एण्ड गैस्ट हाउस प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3
25.	003631	मैसर्स रॉड एण्ड रॉयस रेस्त्रां एण्ड रिज़ार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	003637	मैसर्स जनिनास रेस्त्रां प्राईवेट लिमिटेड
27.	003642	मैसर्स फ्लाईंग कार्पेट रिज़ार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	003656	मैसर्स बालक ड्रमवाला एन्टरटेन्मेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
29.	003661	मैसर्स काइट सर्फ गोवा प्राईवेट लिमिटेड
30.	003664	मैसर्स फ्लोरिस्मा गार्डन्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	003666	मैसर्स ओकि डोकिस हॉलिडे सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
32.	003669	मैसर्स पॉवर प्वाइंट पॉवर इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	003673	मैसर्स लूनर मून रिज़ार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	002940	मैसर्स तिरुमल होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	002969	मैसर्स पफड अप ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
36.	002972	मैसर्स नंदी सॉफ्टवेयर एण्ड कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
37.	002976	मैसर्स एल्संस होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	002982	मैसर्स जैम फीनिक्स एडवेंचर एक्टिविटीज प्राईवेट लिमिटेड
39.	002984	मैसर्स आइशा कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	003008	मैसर्स तीव्रगति रोडलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	003011	मैसर्स कालिका फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
42.	003014	मैसर्स क्लियर लाईन रेस्त्रां गोवा प्राईवेट लिमिटेड
43.	003020	मैसर्स इम्पीरियल बर्गस प्राईवेट लिमिटेड
44.	003023	मैसर्स बिल्टेक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
45.	003024	मैसर्स सेवेन लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	003034	मैसर्स वेवरडियर लीज़र प्राईवेट लिमिटेड
47.	003036	मैसर्स सम्राट शिपिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	003039	मैसर्स एनिगमैटिक हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
49.	003040	मैसर्स सेरोटोनिन मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
50.	003047	मैसर्स श्री मस्कीटियर्स फास्ट फूड प्राईवेट लिमिटेड
51.	003049	मैसर्स सैन नायक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	003065	मैसर्स सेटरडे नाइट बाज़ार प्राईवेट लिमिटेड
53.	003080	मैसर्स ड्रीम्ज़टीवी टेलेंट एण्ड रिसर्च नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
54.	003081	मैसर्स सुन्दरा टूरिज़म वैचर्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	003094	मैसर्स इरल हॉलिडे मेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	003096	मैसर्स हेरम्ब कमर्शियल कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
57.	003127	मैसर्स कॉर्बेट रेस्त्रा प्राईवेट लिमिटेड
58.	003135	मैसर्स गोम्स स्पोर्ट्स एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड
59.	003143	मैसर्स ग्रीनटेक सीड्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
60.	003150	मैसर्स बार्डर केफे कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
61.	003165	मैसर्स रायन ड्रीम टूर्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	003166	मैसर्स इयुफोरिया एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	003252	मैसर्स स्टावरट्स टीम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
64.	003251	मैसर्स गोवा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	003261	मैसर्स धरो रिज़ार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	003278	मैसर्स बैकलर बैवरेजिस प्राईवेट लिमिटेड
67.	003279	मैसर्स श्री राजलक्ष्मी डेयरी प्राईवेट लिमिटेड
68.	003283	मैसर्स वेलंकनी गेस्ट हाउस एण्ड रेस्त्रा प्राईवेट लिमिटेड
69.	003294	मैसर्स ड्रेगनफ्लाई ट्रेवल एण्ड टूरिज़म प्राईवेट लिमिटेड
70.	003300	मैसर्स फर्नांडिस बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	003302	मैसर्स तिरुमल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	003305	मैसर्स फेनजो गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	003307	मैसर्स सॉफ्टेक फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
74.	003312	मैसर्स गोवा बल्क मूव्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	003319	मैसर्स विराट स्टील एण्ड रौलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	003320	मैसर्स गुजरात गोवा बायोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	003321	मैसर्स पर्सनल कनेक्शन नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
78.	003343	मैसर्स मैट्टैया लीज़र प्राईवेट लिमिटेड
79.	003334	मैसर्स जेन हैविट होटल्स एण्ड रिज़ार्ट्स (गोवा) प्राईवेट लिमिटेड
80.	003348	मैसर्स अश्विनी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	003351	मैसर्स गोवन रिज़ार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	003170	मैसर्स सुयश नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
83.	003172	मैसर्स डायस्पोरा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
84.	003174	मैसर्स वैट एण्ड वाइल्ड टूर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
85.	003184	मैसर्स कत्थक मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	117.	002570	मैसर्स गार्डियन गार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	003188	मैसर्स मोहक माइक्रो ब्रीवरी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	118.	002565	मैसर्स कोबाना फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	003189	मैसर्स गोवा सीहॉर्स फार्म प्राईवेट लिमिटेड	119.	002564	मैसर्स ईश्वर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	003190	मैसर्स गोवा एक्वा मेरीन प्राईवेट लिमिटेड	120.	002562	मैसर्स इन्फोलाइन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
89.	003191	मैसर्स क्रिएटिव होलोग्राम्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	002559	मैसर्स वैबसी टैक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
90.	003194	मैसर्स अरविंद नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	122.	002554	मैसर्स इन्डोमर कोस्टल हाइड्रालिक्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	003198	मैसर्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी होलोग्राम्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	002551	मैसर्स साल्ट रिफाइनर्स एण्ड प्रोजेक्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
92.	003206	मैसर्स पर्फ्यूम्स एक्स एम प्राईवेट लिमिटेड	124.	002545	मैसर्स मैग्नम पोर्ट एण्ड टैक्निकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
93.	003214	मैसर्स मैस्सेन्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	125.	002544	मैसर्स कॉकण इंडस्ट्रीयल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
94.	003224	मैसर्स इंग्लिश बेकन एण्ड सॉसेज कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	126.	002540	मैसर्स देश पावर प्राईवेट लिमिटेड
95.	003228	मैसर्स राजश्री रीयल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	127.	002715	मैसर्स स्प्रिंकल्स क्लोथिंग एण्ड लाइफस्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
96.	003231	मैसर्स रिचिस रे प्राईवेट लिमिटेड	128.	002714	मैसर्स ओमेगा मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	003235	मैसर्स प्रिंस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	129.	002059	मैसर्स ओस्रे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
98.	003246	मैसर्स प्रगति नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	130.	002062	मैसर्स विजटैक मेरीन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
99.	003248	मैसर्स गुरु सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	131.	002133	मैसर्स बिजोड एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	003192	मैसर्स नारायण हाईजीन कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	132.	002862	मैसर्स ट्रांसइंडिया कार्गो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	002681	मैसर्स हैम्पीनिंग्स एण्ड इर्वेन्स प्राईवेट लिमिटेड	133.	002859	मैसर्स साओपोल फ्रीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
102.	002677	मैसर्स सन लेगसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	134.	002848	मैसर्स रोजगार एग्री फूड लिमिटेड
103.	002676	मैसर्स राव मैडिकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	135.	003654	मैसर्स चेज़ मेरी रेस्त्रां प्राईवेट लिमिटेड
104.	002669	मैसर्स श्री सप्तकोटेश्वर पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	136.	003286	मैसर्स एलिंगेट बॉटल्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	002668	मैसर्स ट्रीयन काइनेमैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	137.	003050	मैसर्स श्री साईनाथ टैक्नोकंट्रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	002649	मैसर्स क्रिस्टल कूल प्राईवेट लिमिटेड	138.	003255	मैसर्स सिस्क्सपर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	002647	मैसर्स एल्कोटैक डिस्टिलरीस प्राईवेट लिमिटेड	139.	003650	मैसर्स विनर्स शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
108.	002643	मैसर्स सेन्टॉर ड्रग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड			
109.	002641	मैसर्स मोइरा फूड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड			
110.	002622	मैसर्स गोल्ड स्टार मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड			
111.	002612	मैसर्स गोवा हाई टैक वैलीस प्राईवेट लिमिटेड			
112.	002611	मैसर्स सैंडस्टोन क्रिएशंस प्राईवेट लिमिटेड			
113.	002604	मैसर्स चैस्टरफील्ड्स हेल्थ क्लब प्राईवेट लिमिटेड			
114.	002602	मैसर्स श्रेष्ठा एग्री टैक लिमिटेड			
115.	002601	मैसर्स एस्परी पब्लिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड			
116.	002579	मैसर्स गिगि फैशन स्टाइल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड			

संजय कुमार गुप्ता  
कंपनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में  
कटक-753014, दिनांक 9 अप्रैल 2012

सं. आर.ओ.सी./560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	15-008276	मैसर्स श्रीनिवास कल्याण मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-011920	मैसर्स शार्प एन्ड्यूरेंस सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड

सी. के. दास  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

-----  
कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में  
बंगलौर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

सं. कर/560(5)/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	047666	मैसर्स रूरल क्रिस्टल्स एजुकेशनल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	016265	मैसर्स प्रीमियर नाइट्रेट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	050202	मैसर्स फोरसाईट ऊह एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	015638	मैसर्स सिन्डोल लैदर्स लिमिटेड
5.	043277	मैसर्स संजय बिछु इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	006117	मैसर्स चोपड़ा कंस्ट्रक्शन मेटिरियल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	045434	मैसर्स शाहपुर पावर लिमिटेड
8.	048494	मैसर्स अगाते पावर प्राईवेट लिमिटेड
9.	048747	मैसर्स एयरावत पावर प्राईवेट लिमिटेड
10.	048753	मैसर्स एमराल्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड
11.	048748	मैसर्स जडे पावर प्राईवेट लिमिटेड
12.	045730	मैसर्स गोम्मातेश्वरा लाजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	019302	मैसर्स सेक्रेड रीयल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	019301	मैसर्स सम्पूर्णा फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड

के. गीता महालक्ष्मी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 4th April 2012

No. DP/Pers.I/2012/26/3/26/97—Shri G. K. Saraswat relinquished charge of the post of Deputy Legal Advisor, CBI with effect from 31.03.2012 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV  
Admin. Officer (Pers.)

The 11th April 2012

No. DP/Pers.I/2012/27/10/2/2008—The President is pleased to appoint the following Public Prosecutors in Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment as direct recruitment, on the recommendations of UPSC with effect from the dates mentioned against their names:—

S. No.	Name	Date of Appointment as Public Prosecutors
	S/Shri	
1.	Umesh Chandra Saxena	07.10.2011
2.	Jayesh M.S.	07.10.2011
3.	Naveen Kumar	06.02.2012
4.	Chandra Shekhar	03.10.2011
5.	Vivek	03.10.2011
6.	Harsh Mohan Singh	30.01.2012
7.	Neeraj Bhardwaj	31.10.2011
8.	Rakesh Kumar	26.12.2011

They will be on probation for a period of one year.

M. SACHDEV  
Admin. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 19th January 2012

No. P.VII-1/2012-Min.—Reference this Headquarter notification of even number dated 09/01/2012.

2. IRLA No. of Shri Kuldeep Singh published in notification cited above at Sl. No. 05 may be read as under:—

For	Read
IRLA-8716	IRLA-8729
	R. R. DUTTA DIGP (Organisation)

The 4th April 2012

No. P.VII-1/2012-Min.—Reference this Headquarter notification of even number dated 06/01/2012.

2. Date and place of taking over charge as Assistant Commandant (Min) in r/o Shri Ram Kanwar Yadav, IRLA-8711 published in notification cited above at Sl. No. 06 may be read as under:—

For	Read
23/12/2011 (FN) at O/O DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, New Delhi.	13/10/2011 (FN) at O/O DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Greater Noida.

R. R. DUTTA  
DIGP (Organisation)

New Delhi-110003, the 3rd April 2012

## AMENDMENT

No. A.VI-1/2011-Pers(AC)—Reference this Directorate notification of even number dated 03/02/2012.

2. The names of following officers mentioned in the Notification quoted ibid are hereby amended to read as per details mentioned against their names:—

S. No. of Notification at which names mentioned	Roll No.	For	Read
9	20814	Anubha	K. M. Anubha
19	059009	Verma Ramesh Chandra Sukhdev	Varma Ramesh Chandra Sukhdev
46	058846	Kamlesh Indora	Kamlesh Kumar Indora
62	048546	Dharam Singh	Dharm Singh

R. N. MISRA  
DIG (Pers.)

The 10th April 2012

No. O.II-2269/86-Pers-DA-I—Consequent on acceptance of his notice for Voluntary Retirement from Government Service, Shri R. S. Badeshra, DIG (MAC/Int.), Directorate General, CRPF, New Delhi (IRLA : 2532) relinquished the charge of his post on 01/04/2012 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force with effect from 01/04/2012 (FN).

R. N. MISRA  
DIG (Pers.)

No. P.III-2/2012-Pers(DA-5)—Consequent on acceptance of notice dated 28/12/2011 for Voluntary Retirement from service, Shri Karan Raj Singh, Assistant Commandant (IRLA-6792) of Group Centre, CRPF, G/Noida relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st April, 2012. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from the same date i.e. 01/04/2012 (FN).

R. N. MISRA  
DIG (Pers.)

#### DIRECTORATE GENERAL

#### CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 11th April 2012

No. E-38015(4)/1/Resig/JL/2012/Pers.I/135—The President is pleased to accept the resignation of Shri Jangkholet Lhungdim, Assistant Commandant (Probationer) of CISF with effect from 14.03.2012 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

#### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110 124, the 11th April 2012

No. 1781-GE-I/13-2006—The following IA&AS officers have retired on superannuation from Government Service from the date shown against their names:-

S/Shri

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Anupam Kulshreshtha   | Retired on superannuation<br>wef. 31.03.2012 (AN) |
| 2. H. Gopalakrishna      | Retired on superannuation<br>wef. 31.03.2012 (AN) |
| 3. Ms. Renubala Parija   | Retired on superannuation<br>wef. 31.03.2012 (AN) |
| 4. B. S. Lakshminarayana | Retired on superannuation<br>wef. 31.03.2012 (AN) |
| 5. T. K. Biswas          | Retired on superannuation<br>wef. 31.03.2012 (AN) |

Sd/- ILLEGIBLE  
Asstt. Comptr & Auditor General(P)

#### OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110002, the 10 April 2012

No. Admn.I/O.O.No. 356—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints Shri Anil

Kumar Goyal, Assistant Audit Officer (Emp. Code DLNDV4051405) of this office to officiate as Audit Officer in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 26.03.2012 (F/N) until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director (Admn.)

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 10th April 2012

No. O.E./E&C/EIVP/14—The following officials of IA&AD retired from service:

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Sophiamma Joseph	Senior Accounts OfficerMain Office, Thiruvananthapuram	31.03.2012 (AN) (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

#### SURVEY OF INDIA SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun-248001, the 9th April 2012

No. C-2171/725-Steno(1)—The undermentioned Stenographer Grade-I is hereby promoted to the post of Private Secretary (Group 'B') in Survey of India in PB-2 of Rs. 9,300—34,800+4,600/- Grade Pay with effect from the date(s) as shown against their names:-

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Smt. Kalpana Hira (SC)	18-11-2011
2.	Smt. Suman Batra	18-11-2011 (AN)

SWARNA SUBBA RAO  
Surveyor General of India

No. C-2180/725-Steno (1)—The undermentioned Private Secretary (Group 'B') is hereby promoted to the post of Senior Private Secretary (Group 'B') in Survey of India in PB-2 of Rs. 9,300—34,800 + 4,800/- Grade Pay with effect from the date as shown against her name:-

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Smt. Bela Banerjee (SC)	16.11.2011

SWARNA SUBBA RAO  
Surveyor General of India

No. C-2187/594—The undermentioned Senior Reprographers are hereby promoted as Assistant Manager

(Map Reproduction) General Central Service Group 'B' Post (Gazetted) in Survey of India in PB-2 of Rs. 9,300—34,800 + GP Rs. 4,600/- on regular basis with effect from the date (s) as shown against their names:-

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri D. N. Borgaonkar	01.02.2012
2.	Shri Krishan Lal (SC)	30.08.2011
3.	Shri P. C. Verma	30.08.2011
4.	Shri Subramanya Sambu Prasad	22.09.2011

SWARNA SUBBA RAO  
Surveyor General of India

No. C-2198/718-A—The undermentioned Office Superintendents are here by promoted to the post of Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Gazetted) in Survey of India in PB-2 of Rs. 9,300—34,800 + 4,600/- GP on regular basis with effect from the date (s) as shown against their names:-

Sl. No.	Name & Designation	Date of Promotion
1.	Shri D. Ravendar	19.09.2011
2.	Smt. Satyabhama Nayak	23.09.2011
3.	Shri R. N. John	07.12.2011
4.	Shri Rajan Kumar (SC)	03.10.2011
5.	Shri M. L. Chopra	04.01.2012
6.	Shri V. C. Joshi	07.12.2011

#### RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 10th April 2012

No. RRCAT/Admin/2011/R-805/448—President of India is pleased to appoint the following officials on promotion to the grade and Pay Band on the date as indicated against their name in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore:-

Sl. No.	C.C. No.	Name	Present Grade(Pay Band + Grade Pay)	Promoted Grade (Pay Band + Grade Pay)	Promotion w.e.f. Div./ (Forenoon)	Section
1	2	3	4	5	6	7
		S/Shri				
1.	1399	Vinod Gaud	Scientific Officer/SB (PB : 2, Rs. 9,300—34,800/- + GP Rs. 4,800/-)	Scientific Officer/C (PB : 3, Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 5,400/-)	01.07.2011	AMTD
2.	1263	Ravindra Shankar Choudhary	-do-	-do-	-do-	PSIAD
3.	1309	Karan Singh	-do-	-do-	-do-	AMTD
4.	1360	Manish Manyal	-do-	-do-	-do-	CD
5.	1398	Devendra Sinnarkar	-do-	-do-	-do-	LESD
6.	1626	Sushil Kumar Yadav	-do-	-do-	-do-	CD

1	2	3
7.	Shri S. Chakraborty	20.12.2011
8.	Shri Bhupinder Singh Rayat	19.01.2012
9.	Shri Bhagat Ram Bhatt	16.01.2012

SWARNA SUBBA RAO  
Surveyor General of India

No. C-2219/698-Map Curator—Shri Dulal Chandra Das, Assistant is hereby appointed to the post of Map Curator, General Central Service (Group 'B' Gazetted) on deputation basis in West Bengal & Sikkim GDC, Survey of India, Kolkata in PB-2 of Rs. 9,300—34,800 + 4,200/- Grade Pay with effect from 01.11.2011 for a period of three years or a lesser period, if necessary.

SWARNA SUBBA RAO  
Surveyor General of India

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 30th March 2012

No. 20/3(9)/2011-CCS/10—The President is pleased to appoint Shri Laxmi Chand Meena, Administrative Officer-II (PB-2 Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 5,400/-), Bhabha Atomic Research Centre, Tarapur of this Department as Administrative Officer-III (PB-3, Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 6,600/-) in Nuclear Recycle Board, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai w.e.f. 02.03.2012 (FN) until further orders.

C. D. CHACKO  
Under Secy.

1	2	3	4	5	6	7
7.	1211	Rishipal	Scientific Assistant/E (PB : 3, Rs. 15,600—39,100 + GP Rs. 5,400/-)	Technical Officer/C (PB : 3, 15,600—39,100 + GP Rs. 5,400/-)	01.07.2011	MOSS
8.	204	Jagdish Kumar	Foreman/B (PB : 2, Rs. 9,300—34,800 + GP Rs. 4,800/-)	-do-	-do-	LSES

B. K. JENA  
Chief Admin. Officer

#### DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 2nd April 2012

Ref.: DCSEM/A/3(2244)/2012-Rectt./277—Director, Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy appoints Shri M. S. Gophane, Assistant Security Officer (A), BARC, Mumbai as Security Officer in this Directorate in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- from the forenoon of 16.03.2012 until further orders.

B. JAGAN MOHAN RAO  
Administrative Officer-III

#### DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 4th April 2012

Ref.: DPS/07011/Rectt./8929—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints Smt. Komalavally Dinesan, Senior Purchase Assistant [Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,200], Central Purchase Unit, DPS, Mumbai, as Assistant Purchase Officer in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- in the same unit w.e.f. the forenoon of 03.04.2012 until further orders.

CATHERINE RAJ  
Administrative Officer-III

The 10th April 2012

Ref.: DPS/07019/Rectt./9055—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints Shri L. Lingamurthy, Senior Storekeeper [Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,200/-], Stores Unit, Kalpakkam, as Assistant Stores Officer in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Stores Unit, Tarapur, w.e.f. the forenoon of 05.03.2012 until further orders.

CATHERINE RAJ  
Administrative Officer-III

Ref.: DPS/07019/Rectt./9056—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy,

appoints Shri M. D. T. Menon, Senior Storekeeper (Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,200/-), Stores Unit, Kalpakkam, as Assistant Stores Officer in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Stores Unit, Tarapur, w.e.f. the forenoon of 05.03.2012 until further orders.

CATHERINE RAJ  
Administrative Officer-III

#### NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 4th April 2012

Ref. : NFC/Par.-II/Prom.-11/105—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/ Engineers Grade 'G' to the grade of Scientific Officer/Engineer 'H' in the Pay Band Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000 of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad with effect from 12.01.2012 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders:-

Sl. No. Name

(S/Shri/Smt./Kum.)

1. A. Lakshminarayana
2. T. Gopalakrishna
3. I. Kiran Kumar
4. N. Ramesh
5. H. R. Ravindra
6. N. S. Dayanand
7. S. K. Jha
8. Dr. Komal Kapur
9. R. S. Kulkarni
10. B. Satyadev

A. JAYA KRISHNA  
Administrative Officer-III

The 10th April 2012

Ref: NFC/Par.-II/04/06/340—In continuation to Notification No. NFC/Par-1/04/06/232 dated 06.03.2012, the ad hoc appointment of Smt. P.V.S. Phani Sri, Assistant

Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- has been restricted up to 16.03.2012(AN).

A. JAYA KRISHNA  
Administrative Officer-III

Ref.: NFC/PAR-I/04/06/341—In continuation to Notification No. NFC/PAR-I/04/06/231 dated 06.03.2012, the ad hoc appointment of Shri S. Koteswar Rao, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- has been extended up to 31.05.2012 or until further orders, whichever is earlier.

A. JAYA KRISHNA  
Admn. Officer-III

Ref.: NFC/PAR-I/04/06/342—In continuation to Notification No. NFC/PAR-I/04/06/230 dated 06.03.2012, the ad hoc appointment of Smt. B. Padmalatha, Assistant Accounts officer, NFC to officiate as Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- has been extended up to 31.05.2012 or until further orders, whichever is earlier.

A. JAYA KRISHNA  
Admn. Officer-III

Ref.: No. NFC/PAR-I/04/06/343—Chief Executive, NFC appoints Smt. P. V. S. Phani Sri, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts officer on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 26.03.2012 to 31.05.2012 or until further orders, whichever is earlier.

A. JAYA KRISHNA  
Admn. Officer-III

The 11th April 2012

Ref.: NFC/PAR-I/04/06/354—In continuation to Notification No. NFC/PAR-I/04/06/1033 dated 03.12.2011, the ad hoc appointment of Shri Y. Nagarjuna Prasad, Assistant Public Relations officer to officiate as Public Relations Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- has been restricted up to 29.02.2012 (AN).

A. JAYA KRISHNA  
Admn. Officer-III

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

##### (OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. H. N. BPO Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/25/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act,

1956 that the name of M/s. H. N. BPO Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Mascot Heavy Engineering Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/28/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mascot Heavy Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Neo Schools Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/32/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neo Schools Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Sarjan Infotech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/34/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarjan Infotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Dwarkesh Marketing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/37/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act,



1956 that the name of M/s. Dwarkesh Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Knids Communications Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/40/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Knids Communications Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Sahay Infraproject Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/43/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sahay Infraproject Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Pallav Dye Chem Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/46/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pallav Dye Chem Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Indika Furnsoft Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/49/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act,

5-36/GI/2012

1956 that the name of M/s. Indika Furnsoft Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Shiv Sole Services System Centre Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/52/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shiv Sole Services System Centre Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Mahakali Rollor Flour and Pulse Mill  
Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/55/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahakali Rollor Flour and Pulse Mill Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Hetal Developers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/58/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hetal Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. MCA Philoden Speciality Chemicals  
Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2012

No. RoC/FTE/62/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act,

1956 that the name of M/s. MCA Philoden Speciality Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Kolkata-700020, the 11th April 2012

No. RoC/WB/560(FTE)/2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company Name
1.	136256	M/s. Baba Info Solution Private Limited
2.	024825	M/s. Dhar Sen & Co. Private Limited
3.	011401	M/s. Swaika Mineral Crushing Mills & Industries Limited
4.	069505	M/s. Garden Merbels Private Limited
5.	063444	M/s. Victory Goods & Services Private Limited
6.	154279	M/s. Bright Future Leisure Services Private Limited
7.	132283	M/s. Balgopal Investment Consultants Private Limited
8.	063156	M/s. AEM Plastics Private Limited
9.	052173	M/s. ASND Computer Consultancy Services Private Limited
10.	129131	M/s. Osho Fashions Private Limited
11.	102765	M/s. Himgiri Distributors Private Limited
12.	073122	M/s. Sudha Fiscal Services Private Limited
13.	125337	M/s. Great Eastern Energy Infrastructure Private Limited
14.	125341	M/s. Great Eastern Energy Marketing Private Limited
15.	125340	M/s. Great Eastern Natural Gas Private Limited
16.	125338	M/s. Great Eastern CBM Gas Private Limited

MUKTAR SINGH  
Dy. Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the  
following Companies

Panaji-403001, the 17th April 2012

No. RoC/560(3)/2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following companies unless cause are shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies would be dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company Name
1	2	3
1.	003814	M/s. Omkar Therapeutic and Health Services Private Limited
2.	003809	M/s. Cuthill Resorts Private Limited
3.	003808	M/s. Hojos Restaurants Private Limited
4.	003806	M/s. Terrys Holiday Homes Private Limited
5.	003800	M/s. Thomas Hospitality Private Limited
6.	003795	M/s. Brancruz Real Estate Private Limited
7.	003791	M/s. Pawan Keni Constructions Private Limited
8.	003790	M/s. Babylon Water Sports Private Limited
9.	003788	M/s. Parasuram Boilers and Accessories Private Limited
10.	003787	M/s. Anu Smestad Cafe Private Limited
11.	003782	M/s. Umbrella Network Solutions Private Limited
12.	003778	M/s. Legends the Goan Experience Resorts Private Limited
13.	003696	M/s. Madhukar Vasant Khandeparkar Constructions Private Limited
14.	003699	M/s. Elangkuling Oounnuni Thomas Constructions Private Limited
15.	003700	M/s. Kenny Electrical Contractors Private Limited
16.	003704	M/s. Udacha Amusement Private Limited
17.	003695	M/s. Harling Travels Private Limited
18.	003689	M/s. Martin and Julie Restaurants Private Limited
19.	003684	M/s. Gems Lips Drilling Private Limited
20.	003679	M/s. Barbara and Victoria Resorts Private Limited
21.	003677	M/s. Stephanie Resorts Private Limited
22.	003608	M/s. Sunshine Bakery Private Limited

1	2	3
23.	003615	M/s. Sachbima Shippers and Transporters Private Limited
24.	003620	M/s. Tivai Hotel and Guest House Private Limited
25.	003631	M/s. Rod and Royce Restaurants and Resorts Private Limited
26.	003637	M/s. Janinas Restaurants Private Limited
27.	003642	M/s. Flying Carpet Resorts Private Limited
28.	003656	M/s. Balak Drumwalla Entertainment Private Limited
29.	003661	M/s. Kite Surf Goa Private Limited
30.	003664	M/s. Florissima Gardens Private Limited
31.	003666	M/s. Okey Dokeys Holiday Services Private Limited
32.	003669	M/s. Power Point Power Equipments Private Limited
33.	003673	M/s. Lunar Moon Resorts Private Limited
34.	002940	M/s. Tirumal Hotels Private Limited
35.	002969	M/s. Puffed Up Trading Private Limited
36.	002972	M/s. Nandi Software and Consulting Private Limited
37.	002976	M/s. Alsons Hotels Private Limited
38.	002982	M/s. Gem Phoenix Adventure Activities Private Limited
39.	002984	M/s. Aisha Constructions Private Limited
40.	003008	M/s. Tivergati Roadlines Private Limited
41.	003011	M/s. Kalika Pharma Private Limited
42.	003014	M/s. Clear Line Restaurants Goa Private Limited
43.	003020	M/s. Imperial Burgers Private Limited
44.	003023	M/s. Bultec Integrated Building Solutions Private Limited
45.	003024	M/s. Seven Links Private Limited
46.	003034	M/s. Waverider Leisure Private Limited
47.	003036	M/s. Samrat Shipping and Logistics Private Limited
48.	003039	M/s. Enigmatic Health Care Private Limited
49.	003040	M/s. Serotonin Media Private Limited
50.	003047	M/s. Three Musketeers Fast Food Private Limited
51.	003049	M/s. San Naik Developers Private Limited

1	2	3
52.	003065	M/s. Saturday Nite Bazaar Private Limited
53.	003080	M/s. Dreamz tv Talent and Research Network Private Limited
54.	003081	M/s. Sundara Tourism Ventures Private Limited
55.	003094	M/s. Eral Holiday Makers Private Limited
56.	003096	M/s. Herumb Commercial Consultancy Services Private Limited
57.	003127	M/s. Corbett Restaurant Private Limited
58.	003135	M/s. Gomes Sports Academy Private Limited
59.	003143	M/s. Greentech Seeds International Private Limited
60.	003150	M/s. Border Cafe Company Private Limited
61.	003165	M/s. Ryan Dream Tours Private Limited
62.	003166	M/s. Euphoria Exports Private Limited
63.	003252	M/s. Stalwarts Team Marketing Private Limited
64.	003251	M/s. Goa Technology Solutions Private Limited
65.	003261	M/s. Dharo Resorts Private Limited
66.	003278	M/s. Bachler Beverages Private Limited
67.	003279	M/s. Shri Rajlaxmi Dairy Private Limited
68.	003283	M/s. Walankani Guest House and Restaurants Private Limited
69.	003294	M/s. Dragonfly Travel and Tourism Private Limited
70.	003300	M/s. Fernandes Builders Private Limited
71.	003302	M/s. Tirumal Builders Private Limited
72.	003305	M/s. Fenjoe Garments Private Limited
73.	003307	M/s. Softech Pharma Private Limited
74.	003312	M/s. Goa Bulk Movers Private Limited
75.	003319	M/s. Virat Steel and Rolling Mills Private Limited
76.	003320	M/s. Gujarat Goa Biofuels Private Limited
77.	003321	M/s. Personal Connections Network Private Limited
78.	003343	M/s. Metteyya Leisure Private Limited
79.	003334	M/s. Jane Hewitt Hotels and Resorts (Goa) Private Limited
80.	003348	M/s. Ashnita Computers Private Limited

1	2	3	1	2	3
81.	003351	M/s. Goan Resorts Private Limited	112.	002611	M/s. Sandstone Creations Private Limited
82.	003170	M/s. Suyash Network Marketing Private Limited	113.	002604	M/s. Chesterfields Health Club Private Limited
83.	003172	M/s. Diaspora Infotec Private Limited	114.	002602	M/s. Shreshtha Agro-Tech Limited
84.	003174	M/s. Wet and Wild Tours Private Limited	115.	002601	M/s. Esprit Publications Private Limited
85.	003184	M/s. Kathak Metals Private Limited	116.	002579	M/s. Gigi Fashion Style Import Export Private Limited
86.	003188	M/s. Mohak Micro Brewery (India) Private Limited	117.	002570	M/s. Guardian Guards Private Limited
87.	003189	M/s. Goa Seahorse Farm Private Limited	118.	002565	M/s. Cobana Foods Private Limited
88.	003190	M/s. Goa Aqua Marine Private Limited	119.	002564	M/s. Eshwar Hotels Private Limited
89.	003191	M/s. Creative Holograms Private Limited	120.	002562	M/s. Infoline India Private Limited
90.	003194	M/s. Arvind Network Marketing Private Limited	121.	002559	M/s. Websci Technologies Private Limited
91.	003198	M/s. Twenty First Century Holograms Private Limited	122.	002554	M/s. Indomer Coastal Hydraulics Private Limited
92.	003206	M/s. Perfums XM Private Limited	123.	002551	M/s. Salt Refiners and Project Services Private Limited
93.	003214	M/s. Massent Markeing Private Limited	124.	002545	M/s. Magnum Port and Technical Services Private Limited
94.	003224	M/s. English Bacon and Sausage Company Private Limited	125.	002544	M/s. Konkan Industrial Services Private Limited
95.	003228	M/s. Rajshri Real Estate Developers Private Limited	126.	002540	M/s. Desh Power Private Limited
96.	003231	M/s. Riches Ray Private Limited	127.	002715	M/s. Sphinx Clothing and Lifestyle Private Limited
97.	003235	M/s. Prince Industries Private Limited	128.	002714	M/s. Omega Movers Private Limited
98.	003246	M/s. Pragati Network Private Limited	129.	002059	M/s. Osprey Infrastructure Private Limited
99.	003248	M/s. Guru Synthetics Private Limited	130.	002062	M/s. Wistech Marine Services Private Limited
100.	003192	M/s. Narain Hygiene Chemicals Private Limited	131.	002133	M/s. Bijou Estates Private Limited
101.	002681	M/s. Happenings and Events Private Limited	132.	002862	M/s. Transindia Cargo Systems Private Limited
102.	002677	M/s. Sun Legacy Services Private Limited	133.	002859	M/s. Saopaul Freezing Private Limited
103.	002676	M/s. Rao Medical Services Private Limited	134.	002848	M/s. Rojgar Agro Food Limited
104.	002669	M/s. Shree Saptakoteshwar Packaging Private Limited	135.	003654	M/s. Chez Marie Restaurant Private Limited
105.	002668	M/s. Triton Kinematics Private Limited	136.	003286	M/s. Elegant Bottles Private Limited
106.	002649	M/s. Crystal Cool Private Limited	137.	003050	M/s. Shri Sainath Technocontrols Private Limited
107.	002647	M/s. Alcotec Distilleries Private Limited	138.	003255	M/s. Sysxperts Private Limited
108.	002643	M/s. Centaur Drug House Private Limited	139.	003650	M/s. Winners Shipping Private Limited
109.	002641	M/s. Moira Food Company Private Limited			
110.	002622	M/s. Gold Star Machinery Private Limited			
111.	002612	M/s. Goa High Tech Valleys Private Limited			

SANJAY KUMAR GUPTA  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Cuttack-753014, the 9th April 2012

No. ROC/FTE/Sec. 560(5)/2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. Regd. No.	Company Name
1. 15-008276	M/s. Srinivasa Kalyan Motors Private Limited
2. 15-011920	M/s. Sharp Endurance Solution Private Limited

C. K. DAS  
Asstt. Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 16th April 2012

No. ROC/560(5)/2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company Name
1.	047666	M/s. Rural Crystals Educational Services Private Limited
2.	016265	M/s. Premier Nitrates and Chemicals Private Limited
3.	050202	M/s. Foresite Ooh Advertising Private Limited
4.	015638	M/s. Sindol Leathers Limited
5.	043277	M/s. Sanjay Bichu Investments Private Limited
6.	006117	M/s. Chopra Construction Materials Private Limited
7.	045434	M/s. Shahapur Power Limited
8.	048494	M/s. Agate Power Private Limited
9.	048747	M/s. Airavatha Power Private Limited
10.	048753	M/s. Emerald Power Private Limited
11.	048748	M/s. Jade Power Private Limited
12.	045730	M/s. Gommateshwara Logistics Private Limited
13.	019302	M/s. Sacred Realtors Private Limited
14.	019301	M/s. Sampoorana Finlease Private Limited

K. GEETHA MAHALAKSHMI  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012